

Report on Youth for Climate Change

Held on 15th September 2021

| | |
|-------------------------------|---|
| Date of Event | 15.09.2021 |
| Name and Type of Event | Youth for Climate Change |
| Conducted by | Dr. Santosh Kumar Singh, Mr. Akash Kumar Bhagat |
| No. Of Participant | 50 |

Youth for Climate Change

Climate change is the most attracting global issue today. Climate change is any significant variation of average weather conditions that threatens the essential ingredients of good health like clean air, safe drinking water, nutritious food supply, and safe shelter and has the potential to undermine decades of progress in global health. Saving lives and livelihoods requires urgent action.

In such a situation, under the joint aegis of Arka Jain University and Confederation of Indian Industry (CII)-Young Indians Jamshedpur, a seminar on climate change and conservation was organized under the Youth for Climate Change program and tree plantation was also done. In this program Vice Chancellor of the University, Prof (Dr) SS Razi, Director (Campus) Dr Angad Tiwari, CII Chapter Chair Rohit Goyal, Yuva Chair Rahul Pasari, Climate Change Chair Rajiv Shukla, and Young Indians Coordinator of the University Dr Santosh Kumar Singh was present and addressed the students.

Vice Chancellor Prof (Dr) SS Razi said that we have to be vigilant for our future and be committed for climate protection. CII Chapter Chair Rohit Goyal said that the youth of the country have immense power and if they get proper guidance, they can make their valuable contribution to the country in any field. Climate Change Chair Rajiv Shukla said that climate change is a fact and collective efforts are needed to overcome this problem. Yuva Chair Rahul Pasari said that Yuva are future of country and Young Indians- Yuva has been envisioned with a vision to create a synergy between students and their energy for affirmative action. Dr. Santosh Kumar Singh, while highlighting the importance of trees and said that trees provide important support in maintaining the natural balance and conservation of biodiversity is also possible with the increase of forest area.

The program culminated with plantation of trees in the university campus and seed balls were thrown on the adjacent fertile land.

Poster of the event



Photos of the Event



Press Release

यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम के तहत विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन

अरका जैन विश्वविद्यालय और सीआईआई टी और से हुआ प्रोग्राम का आयोजन

JAMSHEDPUR (21 sept): अरका जैन विश्वविद्यालय एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)-यंग इंडियंस जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान पौधरोपण भी किया गया. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. एसएस रजो, निदेशक परिसर डॉ अंगद तिवारी, सीआईआई के चैप्टर चेयर रोहित गोयल, युवा चेयर राहुल पसारी, क्लाइमेट चेंज चेयर राजीव शुक्ल एवं विश्वविद्यालय के यंग इंडियंस समन्वयक डॉ संतोष कुमार सिंह ने छात्रों को संबोधित किया. कुलपति प्रो डॉ एस एस रजो ने कहा कि हमें अपने भविष्य के लिए सतर्कता बरतनी होगी एवं जलवायु संरक्षण के लिए कटिबद्ध होना होगा. सीआईआई के चैप्टर चेयर रोहित गोयल

ने कहा कि देश के युवाओं में अथाह शक्ति है और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने पर देश को किसी भी क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं.

जलवायु परिवर्तन एक सत्य
क्लाइमेट चेंज चेयर राजीव शुक्ल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक सत्य है और इस समस्या से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है. वहीं युवा चेयर राहुल पसारी ने कहा कि युवा भविष्य एवं यंग इंडियंस-युवा ने सकारात्मक कार्रवाई के लिए छात्रों और उनकी ऊर्जा के बीच तालमेल बिटाने के दृष्टिकोण के साथ कल्पना की है. इसी तरह डॉ संतोष कुमार सिंह ने प्रकृति के मूल स्वरूप के संरक्षण में पेड़ों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पेड़ों से ही प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है और वन क्षेत्र को वृद्धि से जैव विविधता का संरक्षण भी संभव है. कार्यक्रम का समापन विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण से किया गया एवं निकटवर्ती जमीन पर सीड बॉल फेंके गए.

● मीके पर प्लांटेशन भी किया गया.

